



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261457  
CG-DL-E-04032025-261457

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1073]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946

No. 1073]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2025

**का.आ. 1081(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1727(अ) दिनांक 12 अप्रैल 2023 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल 2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के लिए GNDHC (WELL#706) TO GGS-IV ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 17 मई 2023 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

#### GNDHC (WELL#706) TO GGS-IV

तालुका : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोड हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4			
1	दहेज	506 (सरकारी)		08	58	62
		268 (सरकारी खार)		00	03	54
		350 (सरकारी खार)		00	00	01
2	कडोदरा	410		00	01	40
		409 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	01	05
		406 (रास्ता)		00	10	88
		405 (सरकारी)		00	01	52
		404 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	19	03
		403 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	04	82
		402 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	19	26
		320 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	00	34
		319		00	46	37
		311		00	13	48
		315 (बंजर भूमि)		00	13	71
		312 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	14	42
		287 (रास्ता)		00	02	96
		267 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	09	80
		264 (ग्राम पंचायत कडोदरा, ढोर चरण)		00	23	05
		250		00	55	20
3	पणीयादरा	1101		00	30	33

		1100		00	10	59
		1098		00	06	86
		1097		00	06	73
		1096		00	15	64
		1095		00	43	34
		1161 (ग्राम पंचायत पणीयादरा, खार)		00	05	77
		1057		00	14	14
		1056		00	16	73
		1054		00	08	48
		1053		00	08	87
		1048		00	08	64
		1047		00	12	52
		1044		00	23	26
		1040		00	07	85
		1039		00	01	32
		1038		00	15	89
		1037 (ग्राम पंचायत पणीयादरा, सरकारी पडतर)		00	15	14
		1036		00	09	63
		1034		00	02	32
		1033		00	15	79
		1032		00	09	44
		1031		00	28	27
		1009 (ग्राम पंचायत पणीयादरा, सरकारी पडतर)		00	11	24
		1011		00	08	77
		987		00	15	11
		986 (पुराना 718)		00	20	07
		983 (नाला)		00	02	60
		980		00	22	18
		976		00	19	09
		975		00	11	04
		974		00	02	04

		967		00	05	38
		941		00	05	66
		940		00	00	71
		942		00	03	51
		939 (रास्ता)		00	02	16
		929		00	05	23
		927		00	05	59
		926		00	10	15
		906		00	11	78
		905		00	09	14
		900		00	06	43
		899		00	06	88
		868		00	10	04
		866		00	11	21
		865		00	02	87
		854		00	10	65
		853		00	00	18
		746		00	02	06
		736		00	00	16
		737		00	04	12
		708 (रास्ता)		00	04	55
		707		00	07	20
		706		00	10	78
		719 (सरकारी)		00	00	81
4	हरीनगर	57		00	21	73
		56		00	13	84
		52		00	06	01
		54		00	07	70
		84		00	02	75
		85		00	01	04
5	नरणावी	54		00	35	66
		53		00	21	27
		52		00	21	73

		44		00	20	93
		45		00	21	62
		47		00	02	65
		48 (जी.जी.एस.)		00	05	63

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/8/2023- इएक्सपीएल-1-पीएनजी (ई-46348)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2025

**S.O. 1081(E).**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1727 (E) Dated 12 April 2023 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazzette of India dated 13 April 2023 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Oil from GNDHC (WELL#706) TO GGS-IV should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazzette notification were made available to the public up to dt.17 May 2023.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE****GNDHC (WELL#706) TO GGS-IV**

TA:- VAGRA

DIST.:- BHARUCH

STATE:- GUJARAT

Name of Village	Survey No./ Block No.	Part if any	ROU Area		
			Hq.	Are	Sq.mtr
1	2	3	4		
1.	Dahej	506 (Govt. Land)	08	58	62
		268 (Govt. Land)	00	03	54
		350 (Govt. Land)	00	00	01
2.	Kadodara	410	00	01	40
		409 (Gram Panchayat Kadodara)	00	01	05
		406 (Road)	00	10	88
		405 (Govt. Land)	00	01	52

		404 (Gram Panchayat Kadodara)		00	19	03
		403 (Gram Panchayat Kadodara)		00	04	82
		402 (Gram Panchayat Kadodara)		00	19	26
		320 (Gram Panchayat Kadodara)		00	00	34
		319		00	46	37
		311		00	13	48
		315 (Waste Land)		00	13	71
		312 (Gram Panchayat Kadodara)		00	14	42
		287 (Road)		00	02	96
		267 (Gram Panchayat Kadodara)		00	09	80
		264 (Gram Panchayat Kadodara)		00	23	05
		250		00	55	20
3.	Paniyadara	1101		00	30	33
		1100		00	10	59
		1098		00	06	86
		1097		00	06	73
		1096		00	15	64
		1095		00	43	34
		1161 (Gram Panchayat Paniyadra waste land)		00	05	77
		1057		00	14	14
		1056		00	16	73
		1054		00	08	48
		1053		00	08	87
		1048		00	08	64
		1047		00	12	52
		1044		00	23	26
		1040		00	07	85
		1039		00	01	32
		1038		00	15	89
		1037 (Gram Panchayat Paniyadra waste land)		00	15	14
		1036		00	09	63
		1034		00	02	32
		1033		00	15	79
		1032		00	09	44
		1031		00	28	27
		1009 (Gram Panchayat Paniyadra waste land)		00	11	24
		1011		00	08	77
		987		00	15	11
		986 (Old 718)		00	20	07
		983 (Drain)		00	02	60
		980		00	22	18
		976		00	19	09
		975		00	11	04
		974		00	02	04
		967		00	05	38
		941		00	05	66
		940		00	00	71
		942		00	03	51
		939 (Road)		00	02	16

		929		00	05	23
		927		00	05	59
		926		00	10	15
		906		00	11	78
		905		00	09	14
		900		00	06	43
		899		00	06	88
		868		00	10	04
		866		00	11	21
		865		00	02	87
		854		00	10	65
		853		00	00	18
		746		00	02	06
		736		00	00	16
		737		00	04	12
		708 (Road)		00	04	55
		707		00	07	20
		706		00	10	78
		719 (Government Land)		00	00	81
4.	Harinagar	57		00	21	73
		56		00	13	84
		52		00	06	01
		54		00	07	70
		84		00	02	75
		85		00	01	04
5.	Narnavi	54		00	35	66
		53		00	21	27
		52		00	21	73
		44		00	20	93
		45		00	21	62
		47		00	02	65
		48 (GGS)		00	05	63

[F. No. Expl-11032(11)/8/2023-EXPL-I-PNG (46348)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.